STERLING TOOLS LIMITED

CIN: L29222DL1979PLC009668

WORKS: 5-A DLF Industrial Estate Faridabad - 121 003 Haryana India

Tel: 91-129-227 0621 to 25/225 5551 to 53

Fax: 91-129-227 7359

E-mail: sterling@stlfasteners.com website: stlfasteners.com



By NEAPS	By Listing Centre
National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Plot No-C/1 G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai-400051	General Manager BSE Limited 1st Floor, P. J. Towers Dalal Street, Fort Mumbai – 400001
Security Code No.: STERTOOLS	Security Code No.: 530759

Date: 16th July 2024

Sub: Newspaper Publication in respect to Transfer of Equity Shares of the Company to Investor

Education and Protection Fund (IEPF)

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulations 30 and 47 read along with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Regulation"), please find enclosed herewith a copy of publication in respect to Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) published today, i.e., on 16th July 2024 in Financial Express (English)- Delhi Edition and Jansatta (Hindi) -Delhi Edition

You are requested to kindly take the same on your records.

Sincerely,

For STERLING TOOKS, LIMITED

Company Secretary & Compliance Officer

M.No-34399

Encl.: As Above

FINANCIAL EXPRESS

VOITH

VOITH PAPER FABRICS INDIA LIMITED

Registered Office: 113/114-A, Sector-24, Faridabad –121005, Haryana CIN: L74899HR1968PLC004895

Phone: +91 129 4292200; Fax: +91 129 2232072

E-mail: voithfabrics.faridabad@voith.com; Website: www.voithpaperfabricsindia.com

NOTICE OF 54th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 54th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, August 09, 2024 at 3:30 p.m. (IST), through Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), at deemed venue, at Registered Office of the Company at 113/114-A, Sector-24, Faridabad – 121005, Haryana, to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

In Compliance with the requirements of applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), Government of India and SEBI, Company has e-mailed the Notice of 54" AGM along with the Annual Report 2023/24, to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant. This year also the requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with by the regulators, unless specifically requested by a shareholder.

Members holding shares in physical form or in dematerialized form may cast their vote electronically on the Business Items, as set out in the Notice of AGM. Members, who have exercised their vote by Remote E-voting, may also attend the AGM but shall not be allowed to vote again at the meeting. However, Remote E-voting facility is optional and a member may cast the vote by E-voting while attending AGM through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM").

Cut-off date for the purpose of E-voting is Friday, 02nd August, 2024 and a person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date, shall only be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as E-voting during the AGM.

and shall end on Thursday, 08th August, 2024, 5:00 p.m. E-voting portal shall be blocked after the aforesaid date and time for voting. Once the vote is cast by a member on any resolution, the member shall not be allowed to change it subsequently.

The Remote E-voting facility shall commence on Tuesday, 06th August, 2024 at 9:00 a.m.

Any person who acquires shares after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date, may obtain the required login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

The Notice of AGM is also available on the Company's website www.voithpaperfabricsindia. com and on CDSL's website www.evotingindia.com. In case of any queries or clarification relating to E-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and E-voting manual available at www.evotingindia.com, under 'Help' section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any grievance relating to E-voting facility, members may contact the Company via email at investorcare.vffa@voith.com.

Further, in pursuance of Section 91 of the Companies Act, 2013, It may be noted that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 27th July, 2024 to Friday, 09th August, 2024 (both days inclusive) for determining the entitlement of shareholders to receive dividend for the year ended 31st March, 2024, if declared.

For Voith Paper Fabrics India Limited

C. S. Gugliani Company Secretary Membership No.: F4301

Norican Group

Date: 13th July, 2024

Place: Faridabad

DISA INDIA LIMITED

Regd. Office: World Trade Center (WTC), 6th Floor, Unit No. S-604, Brigade Gateway Campus, 26/1, Dr. Rajkumar Road, Malleswaram-Rajajinagar, Bengaluru - 560 055. Ph: +91 80 22496700 E-mail: investor.relations@noricangroup.com www.disagroup.com/en-in CIN No: L85110KA1984PLC006116

NOTICE OF 39[™] ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The Thirty Nineth (39th) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing or Other Audio Visual Means ("VC") on Thursday, August 8, 2024 at 11:00 A.M. IST, in compliance with General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India vide its circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 (collectively "Relevant Circulars"), other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) to transact the business as set out in the Notice dated May 23, 2024. Members attending the AGM through VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Members of the Company are hereby informed that pursuant to Relevant Circulars, the Company has dispatched the Notice of AGM and Annual Report by electronic mode on July 15, 2024 to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/Depository Participants (DP). The aforesaid documents are also available on the Company's website at https://www.disagroup.com/en-in/ investor-relations/financial-reports/annual-reports and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

Members who are holding shares in physical mode and have not registered their email addresses will have an opportunity to cast their votes remotely on the business to be transacted at the AGM through remote e-voting or through e-voting system during the AGM. The manner of e-voting for shareholders holding shares in electronic and physical mode has been provided in the Notice of the AGM.

Members holding the shares in electronic mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with relevant depositories through their DP. Members holding shares in physical mode are requested to furnish such details to Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Private Limited.

Procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Relevant Circulars, the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing the facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, it has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate voting through electronic means.

Members joining the AGM through VC shall be permitted to exercise their right to vote using the e-voting facility at the AGM, provided they have not cast their votes using remote e-voting facility. The members who have cast their votes prior to AGM using the remote e-voting facility may also join the AGM through VC; but shall not be entitled to cast their votes again The facility of casting votes by a Member using e-voting during the AGM will also be provided

Information and instructions relating to remote e-voting as well as e-voting during the AGM have been provided in the Notice of the AGM. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC.

E-voting rights of the members will be reckoned on the Equity Shares held by them either in physical form or in electronic form as on August 1, 2024. The e-voting period commences from 9 AM IST on August 4, 2024 (Wednesday) and ends at 5 PM IST on August 7, 2024 (Wednesday). During this period, the Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e., August 1, 2024 may obtain the login ID and password/seek assistance related to e-voting by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or by contacting Company's RTA, Integrated Registry Management Services Private Limited, 30, Ramana Residency, IV Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru-560 003 [Telephone +91-80-23460815-818, Fax: +91-80-23460819 and email id irg@integratedindia.in].

In case of any queries, the Members may refer "Frequently Asked Questions (FAQs)" and e-voting Manual for Members available at the help section of www.evotingindia.com or contact helpdesk.evoting@cdslindia.com/ CDSL toll free no. 18002005533. In case of any other queries or clarifications, please contact Ms. Shrithee M S, Company Secretary, DISA India Limited, World Trade Center (WTC), 6th Floor, Unit No. S-604, Brigade Gateway Campus, 26/1, Dr. Rajkumar Road, Malleswaram-Rajajinagar, Bengaluru-560055, E-mail id: investor.relations@noricangroup.com and Phone No. +91 80 22496700.

The results of remote e-voting and e-voting at the AGM along with the Scrutinizer Report will be placed on the website of the Company (www.disagroup.com/en-in) and on the website of CDSL (www.evotingindia.com) within a period of two working days from the conclusion of the AGM to be held on August 8, 2024 for information of the Members and will be communicated to the BSE Limited.

Book Closure

Place: Bangalore

Date: July 15, 2024

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 is also hereby given that the Register of Members, Register of Beneficial Owners and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 2, 2024 to August 8, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 39th AGM and to determine the Shareholders entitled to receive the dividend on the Equity Shares for the Financial Year ended March 31, 2024, if declared at the AGM.

> By Order of the Board of Directors For DISA India Limited

Shrithee M S Company Secretary

STATE BANK OF INDIA, Premises & Estate Department, 3rd Floor,LHO, Hoshangabad Road, Bhopal-462011

SBI LHO Bhopal invites applications for: 1) Empanelment of vendors for supply Digitization Cell, Transformation Management Office installation, testing and maintenance of fire extinguishers of Bank branches/premises located under Bhopal Circle. AND 2) Pre-qualification of Indian Bank, a leading Public Sector vendors for proposed revamping of existing Fire hydrant system at LHO Building, SELECTION OF SERVICE PROVIDER

The detailed documents in this regard containing eligibility criteria, terms and conditions application format and other detail/requirement can be downloaded from the Bank's website www.sbi.co.in under Procurement News. The last date for submission of application shall be 05.08.2024 at this office. SBI reserves its right to reject any or all the applications without assigning any reasons, whatsoever.

ASSISTANT GENERAL MANAGER (P & E)



इंडियन बैंक 🚜 Indian Bank

Corporate Office, Chennai

FOR CORPORATE DATA

AGGREGATION FOR EXTENSIVE

DATA INFORMATION SERVICES WITH

ADVANCED LEVEL OF DATA

ANALYTICAL CAPABILITIES FOR DIGITIZATION OF CORPORATE

Interested parties may refer Bank's

Website:

https://www.indianbank.in/tenders &

GeM portal

▲ salging

Bank, is interested in:

CREDIT JOURNEY.

STERLING TOOLS LIMITED CIN No.: L29222DL1979PLC009668

Regd. Office: Unit No-515, DLF Tower A Jasola District Centre, New Delhi-110025 Corporate Office: Plot No. 4, DLF Industrial Estate, Faridabad-121003 E-mail: csec@stlfasteners.com, Website: www.stlfasteners.com Tel: 91129 2270621-25 / Fax: 91129 2277359

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

This Notice is hereby given to shareholders of the Company pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 ("the Act) read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016, ("The IEPF Rules"), as amended from time to time, the Company is required to transfer the shares, in respect of which the dividend remains unpaid or unclaimed for a period of 7 (Seven) or more consecutive years to the demat account of the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority ("IEPF Authority).

A list of such shareholders who have not encashed/claimed their dividend for seven consecutive years i.e from F.Y. 2017-2018 (First Interim) declared on 7" September 2017 onwards and whose equity shares are liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority in due course, is displayed under Investor column on the website of the company at www.stlfasteners.com.

In compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders by post and the shareholders are requested to forward the requisite documents as mentioned in the said communications, to the Company's Registrar and Share Transfer Agent on or before 14" October 2024 to claim the unclaimed dividend. For shares held in demat form, please update your bank detail in your demat account and send a copy of the same with request letter to RTA. For shares held in physical form, Please send Form ISR-1, Form ISR-2 and Form No. SH 13 (Nomination Form) duly filled as per the instructions stated therein along with the related supporting documents, original cancelled cheque stating shareholder's name, and copy of PAN of shareholder(s) including joint name to RTA (i.e. Mas Services Limited, T-34 2 Floor Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi 110020. If you are not holding shares as on date in your folio number please send only request letter, Form ISR-2, and original Cancelled cheque. The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be

transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of dematerialization and transfer of shares to IEPF Authority as per Rules and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of Corporate Action to convert the new share certificate into DEMAT form and transfer in favor of IEPF Authority. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable and in case of Shares held in Demat Form, the company will execute corporate action as per IEPF rules and shares will be transferred to IEPF Authority.

In the event the Company does not receive a valid claim along with requisite documents from the concerned shareholder(s) by 14" October 2024, the Company will proceed to transfer the shares to the demat account of the IEPF Authority, in due course. Please note that all further benefit arising on such shares would also be transferred to IEPF Authority.

The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is a specific order of Court/ Tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and the equity shares transferred to the IEPF. Shareholders may also note that both the unclaimed dividends and unclaimed shares, once transferred to IEPF can be claimed back from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the IEPF Rules (after Filing E-Form-IEPF-5).

The shareholders may further note that the details made available by the Company on its website shall be deemed as adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

For any further information/ clarifications on the above, the concerned shareholders may write to the Company at csec@stlfasteners.com or contact the Company's Registrars and Share Transfer Agent, M/s. MAS Services Limited, Unit: Sterling Tools Limited, T-34, 2" Floor, Okhla Industrial Area, Phase -11, New Delhi -110 020, Phone: 011-26387281/82/83, Fax: 011-26387384, Email: investor@masserv.com.

FOR STERLING TOOLS LTD Sd/-

(Abhishek Chawla) Company Secretary

Place: New Delhi

Date: July 15, 2024

GO COLORS! GO FASHION (INDIA) LIMITED

CIN: L17291TN2010PLC077303 Regd Off: No.18, Nungambakkam High Road, Chennai, Tamil Nadu 600 034

Phone: 044-4211 1777, Website: www.gocolors.com, E-mail: companysecretary@gocolors.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday 07th August 2024 at 10:30 a.m IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") ii compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the general circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, May 05, 2022 December 28, 2022 and September 25, 2023 and applicable SEBI circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021 May 13, 2022, January 05, 2023 and October 07, 2023 (collectively "Applicable Circulars"), to transact the business set out in the Notice. The Member will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast at https://www.evoting.nsdl.com/. Since this AGM is being held pursuant to the MCA/ SEBI Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Members participating through VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

The Notice of the 14th AGM along with the Directors' Report, Auditor's Report and Accounts of the Company for the financial year ended 31st March 2024 have been dispatched on July 15, 2024 in electronic mode to those Members who have registered their e-mail addresses with the Depositories. The aforesaid documents are also available on the "Company's website at www.gocolors.com and on the website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com.

The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company

as of the cut-off date 31st July 2024. In compliance with the provisions of Section 108 of Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration)

Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations 2015, Members are provided with the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed at the AGM as set forth in the notice using an electronic voting system ("remote e-voting"), provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available during the AGM and the Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting will be able to vote at the AGM. A Member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM by the Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses are provided in the Notice of the AGM and is also available on the Company's website at www.gocolors.com and on the website of the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com and on the website of BSE Limited ("BSE") at www.bseindia. com and on the website of NSDL at evoting@nsdl.co.in. Only persons whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained

by the depositories as of the cut-off date i.e., Wednesday, July 31st 2024, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting. The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as of the Cut-Off date. The remote e-voting period commence from Saturday, 03rd August 2024 at 9:00 hrs IST and will end on Tuesday, 06th

August 2024 at 17:00 hrs IST. The remote e-voting shall be disabled thereafter by NSDL. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member as of the cut-off date i.e. 31st July 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing user ID and password for this purpose. Members holding shares in Physical form can send a request to the Registrar and Transfer Agents of the Company

(RTA), at einward.ris@kfintech.com providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) or alternatively sending Form ISR-1 (available on the website of the company at https://cdn.shopify.com/s/ files/1/0598/8158/6848/files/Communication to Shareholders faeb76f2-6527-4ad7-9b37-75fd530ba287 pdf?v=1655728869) for registering email address. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant. In case of any query/ grievance with respect to remote e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions for

or contact Ms. Prajakta, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound. Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Email: evoting@nsdl.co.in, Tel: 022 4886 7000 and 022 2499 7000. Ms. Srinidhi Sridharan, Company Secretary in Practice (Membership no: 47244, C.P.No.17990) of M/s. Srinidhi Sridharan & Associates has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and the voting at AGM in a fair and transparent manner. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be communicated within two working days of conclusion of AGM to Stock Exchanges (NSE & BSE), NSDL and placed on the website of the Company www.gocolors.com.

Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website

The documents will be available for inspection by the members in electronic mode. Members can send an e-mail to companysecretary@gocolors.com requesting for inspection. **BOOK CLOSURE**

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations 2015, it is

Chennai

July 16, 2024

hereby informed that the Share Transfer Books and Register of Members will be closed from 01st August 2024 to 07th August 2024 (both days inclusive) for the purpose of 14th Annual General Meeting (AGM) scheduled on 07th August 2024. By Order of the Board

For Go Fashion (India) Limited V.Gayathri **Company Secretary**

ASHIANA HOUSING LTD.

CIN: L70109WB1986PLC040864 Regd. Off.: 5F, Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata - 700 071 Head Off.: Unit No. 4 & 5, Illrd Floor, Southern Park, Plot No. D-2 Saket District Centre, New Delhi -110 017

Website: www.ashianahousing.com Email: investorrelations@ashianahousing.com

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all concerned that the company has received request along with necessary indemnity bond and affidavit from shareholder(s) of the company to issue duplicate share certificate in lieu of the lost share certificate, details of which is given herein below:

SI. No.	Name of Regd. Shareholder	L.F. No.	Certificate No.	Distinctive No.	of Shares
249	Ramandeep Singh Ahluwalia	0023273	4354	7986891-7988640	1,750
· no	4.0		24 1		

Since the company is in the process of issuing duplicate share certificate. any person who has objection on such issue, may lodge his objection within 15 days from the date of appearance of this advertisement to the company or its Registrar M/s. Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi-110 062.

For Ashiana Housing Ltd.

Place: New Delhi Nitin Sharma Date: 15th July, 2024 (Company Secretary)

Bata **BATA INDIA LIMITED** CIN: L19201WB1931PLC007261

Registered Office: 27B, Camac Street, 1st Floor, Kolkata - 700016, West Bengal Telephone: +91 33 2301 4400 | Fax: +91 33 2289 5748 E-mail: share.dept@bata.com I Website: www.bata.in NOTICE OF 91ST ANNUAL GENERAL MEETING AND

INFORMATION ON E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 91st (Ninety-first) Annual General

Meeting (the "AGM" or the "Meeting") of the Members of Bata India Limited (the "Company") will be held on Wednesday, August 7, 2024 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice convening the Meeting (the "Notice"). The Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") vide its General Circulars No. 14/2020, No. 17/2020, No. 20/2020, No. 02/2021, No. 2/2022, No. 10/2022 and No. 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively (hereinafter, collectively referred as the "MCA Circulars") read with SEBI Circulars No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11, No. SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 and No. SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023 and October 7, 2023 respectively (hereinafter, collectively referred as the "SEBI Circulars" and together with the MCA Circulars referred as the "Circulars"), has allowed companies to conduct their annual general meetings through VC or OAVM, in compliance with the Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended) (the "Act") and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "Listing

alongwith the Annual Report including Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2024 has been sent only through e-mails to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent (the "RTA") i.e., M/s. Link Intime India Private Limited or the Depository Participant(s) and holding equity shares of the Company as on July 12, 2024. The Notice and the Annual Report are available on the websites of the Company viz., www.bata.in and has also been forwarded to the Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed, enabling them to disseminate the same on their respective websites viz., www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.cse-india.com. The Notice shall also be available on the e-Voting website of the agency engaged for providing e-Voting facility, i.e., National Securities Depository Limited ("NSDL"), viz., www.evoting.nsdl.com Members are requested to refer to the Newspaper advertisement

In accordance with the Circulars, the Notice convening the AGM

dated July 3, 2024 issued by the Company and published on July 2024 in "Financial Express" (English) and "Ekdin" (Bengali) for further details pertaining to the Meeting. The said advertisement is also available on the website of the Company and has also been forwarded to the Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed, enabling them to disseminate the same on their respective websites viz., www.nseindia.com, www.bseindia.com and www.cse-india.com

Members are also informed hereby that: Pursuant to Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies

- (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide e-Voting facilities through NSDL to its Members, in respect of the businesses to be transacted at the AGM. The manner and instructions to cast votes through remote e-Voting as well as through e-Voting system during the Meeting have been provided alongwith the Notice.
- The businesses set out in the Notice shall be transacted through e-Voting only. The Members, whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on Wednesday, July 31, 2024, being the cut-off date, shall be entitled to avail the e-Voting facility. Once vote(s) on Resolution(s) are cast by any Member, the same cannot be changed subsequently. The remote e-Voting will commence on Sunday, August 4, 2024 (9:00 A.M. IST) and end on Tuesday, August 6, 2024 (5:00 P.M. IST). Thereafter, the module of remote e-Voting shall be disabled by NSDL at 5:00 P.M. on August 6, 2024. A person who is not a Member as on the cut-off date, i.e. Wednesday, July 31, 2024, should treat the Notice for information purpose only.
- Members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-Voting, shall be eligible to exercise their voting rights during the AGM through e-Voting system via www.evoting.nsdl.com

Voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC or OAVM but shall not be entitled to cast their votes again during the AGM. 4. Any person, who acquires equity shares of the Company and

Members who have exercised their voting rights by remote e-

becomes a Member after despatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e., July 31, 2024 may obtain the login Id and password for e-Voting, by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or to the Company at share.dept@bata.com

Members who are already registered with NSDL for remote e-Voting can use their existing User Id and Password for e-Voting.

- 5. All documents referred to in the Notice and the Explanatory Statement thereto shall be made available for inspection by the Members of the Company, without payment of fees, upto and including the date of AGM. Members desirous of inspecting the same may send their requests at share.dept@bata.com from their registered e-mail addresses mentioning their names and folio numbers / demat account numbers.
- 6. In case of any queries / grievances relating to e-Voting, Members may refer to "Frequently Asked Questions on e-Voting (For Shareholders).pdf" and "e-Voting Manual - Shareholder.pdf" available at the "Download" section of NSDL e-Voting website, i.e., www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager of NSDL or at e-mail id: evoting@nsdl.co.in . Members holding securities in demat mode with CDSL, can call at Toll Free No.: 1800 22 55 33 or at e-mail id: helpdesk.evoting@cdslindia.com. For any further assistance, Members may also contact Mr. Nitin Bagaria, Company Secretary, Bata India Limited at Telephone No.: (0124) 3990100 or at e-mail ID share.dept@bata.com

NOTICE is hereby also given that pursuant to Section 91 of the Act, Rule 10 of the said Rules and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Registers of the Company shall remain closed from Thursday, August 1, 2024 to Wednesday, August 7, 2024 (both days inclusive), for the purpose of the AGM and payment of dividend.

For BATA INDIA LIMITED

NITIN BAGARIA

Company Secretary & Compliance Officer

financialexp.epapr.in









Place: Gurugram

Date : July 15, 2024

बंधककर्ता के नाम एवं पते

नाइस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट नं. 201, प्लॉट न

15, कम्युनिटी सेंटर फेज–1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,

देल्ली—110020. यहां भी : एलजीएफ, सी—56ए, ब्लॉक, काल.

काजी, साउथ दिल्ली–110019. यहां भी : 4581–सी, सेक्टर

70. मोहाली. एसएएस नगर, पंजाब—160069. यहां भी : 36,

प्रवर्तित की जानेवाली प्रतिभूत

परिसंपत्तियों का पता

"वाणिज्यिक इकाई जिसका

नंबर 201 (दो शन्य एक) है,

जो द्वितीय तल पर, छत /

छज्जा के अधिकारों के बिना है,

जिसका कवर्ड एरिया लगभग

देयराशि रु. में

12.07.2024

6,18,11,977.55 /-

(रुपये छह करोड़

अट्टारह लाख ग्यारह

मांग सूचना मे राशि (रुपये)

मांग सूचना मे राशि (रुपये)

09/07/2024

HL00652200000005027083

रु. 949688 (रुपये नौ लाख उन्चालीस

हजार छह सौ अड्रासी मात्र) साथ में

पुनर्भुगतान तक 13 प्रतिशत प्रति वर्ष की

दर से अतिरिक्त ब्याज ऋण संख्याः

LAP0652200000005027126

रु. 1681240 (रुपये सोलह लाख इक्यासी

हजार दो सौ चालीस मात्र) साथ में

पुनर्भुगतान तक 15.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की

दर से अतिरिक्त ब्याज 09/07/2024

रु. 953962 (नौ लाख तिरपन हजार

नौ सौ बासठ रुपये मात्र) साथ में

पुनर्भुगतान तक 13 प्रतिशत प्रति वर्ष

की दर से अतिरिक्त ब्याज।



पीसी ज्वैलर लिमिटेड

निगमित पहचान संख्या: L36911DL2005PLC134929 पंजी: कार्यालयः 2713, तीसरा तल, बैंक स्ट्रीट, करोलवाग, नई दिल्ली-110005, फोन: 011-49714971, वेबसाइटः www.pcjeweller.com, फैक्सः 011-49714972, ई मेलः info@pcjeweller.com

असाधारण आम बैठक सम्बन्धी सूचना

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2023 (इस संबंध में जारी पहले के परिपत्रों के क्रम में) (इसके बाद "एमसीए परिपत्र" संदर्भित) तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेझाएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में इंजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय को करने के लिए पीली ज्वैलर लिमिटेंड ("कंपनी") की असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") मुरुवार, 8 अगरत, 2024 को 11:00 बजे पूर्वाह (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओ**एवीएम**") के मध्यम से आयोजित की जाएगी।

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, ईजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जाएगी जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस ("डीपी") / कंपनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") — केफिन टेक्नोलॉजीज | लिमिटेड ('केफिनटेक') के साथ पंजीकृत है। ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.pcieweller.com_बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सबेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: https://www.bseindia.com तथा https://www.nseindia.com और केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्द होगी। ईजीएम की सूचना की भौतिक

प्रति उन सदस्यों को भेजी जाएगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे। सदस्य ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय पर रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम में वोटिंग अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना बोट दे सकेंगे। यदि आपका ई—मेल पता डीपी / कंपनी / आरटीए के साथ पंजीकृत है, तो ई-बोटिंग के लिए लॉगिन बिबरण आपके पंजीकृत ई—मेल पते पर भेजा जाएगा। कृपया ध्यान दें कि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और ईजीएम में प्रस्ताव पर वोट करने के लिए एक ही लॉगिन विवरण आवश्यक हैं । भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य या वे सदस्य जिनका ई–मेल पता पंजीकृत नहीं है, ये रिमोट ई–वोटिंग या ईजीएम अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ईजीएम सचना में उठिलखित प्रक्रिया का संदर्भ ले सकते हैं। ईजीएम की सचना में ईजीएम में 🖥 भाग लेने, रिमोट ई-बॉटिंग और ईजीएम में ई-बोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता और अद्यतन बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके इसे पंजीकृत कराएं :

 डीमैट फॉर्म में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपने संबंधित ढीपी के साथ अपना ई—मेल पता पंजीकृत कर सकते हैं और बैंक खाते का विवरण अपबेट कर सकते हैं, और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए - केफिनटेक के साथ निर्धारित फॉर्म आईएसआर--1 में अपना ई-मेल पता पंजीकृत कर सकते हैं और बैंक खाते का विवरण अपडेट कर सकते हैं। सदस्य कंपनी की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे विधिवत भरे हुए फॉर्म को आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ

कंफिनटेक के पास भेजने का अनुरोध किया जाता है।

स्थानः नई दिल्ली

दिनोंक: 15 जुलाई, 2024

कृते पीसी ज्वैलर लिमिटेड हस्ताक्षरित / -(विजय पर्वार) कंपनी सचिव

प्रपत्र जी

एल्युमीनियम एक्सटूडेड उत्पादों के विनिर्माण में कार्यरत इडो एल्युसिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेत आमंत्रण (भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36ए(1) के अंतर्गत)

	प्रासंगिक विवरण		
1.	पैन / सीआईएन / एलएलपी नंबर के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नाम	इंडो एल्युसिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पैन— - AAACM5489L U74999DL1979PLC009937	
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	बी—292, कार्यालय संख्या 303, चंद्रकांता कॉम्प्लेक्स न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110096।	
3.	यूआरएल का वेबसाइट	http://www.indoalusys.com/about.html	
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	सभी संयंत्र और मशीनरी—असोला वन्य जीव अभ्यारण्य के पास छतरपुर में एलएंडटी के साथ जॉब वर्क अनुबंध स्थल पर	
5.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं की स्थापित क्षमता	निर्माणाधीन भवनों में एल्युमीनियम दरवाजे और खिड़कियां लगाने के लिए असोला वन्य जीव अभ्यारण्य के पास एलएंडटी छतरपुर के साथ केवल जॉब वर्क अनुबंघ।	
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों / सेवाओं की मात्रा और मूल्य	कॉर्पोरेट देनदार ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 3.74 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया है।	
7.	कर्मचारियों / कर्मचारियों की संख्या	कंपनी के निलंबित निदेशक (शीडी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कॉर्पोरेट देनदार के पास साइट पर 3 कर्मचारी और 1 पर्यवेक्षक हैं।	
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (शेड्यूल के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियों सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं:	विस्तृत जानकारी आरपी को ईमेल आईडी — cirp.indoalusys@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।	
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	विस्तृत जानकारी आरपी को ईमेल आईडी — cirp.indoalusys@gmail.com पर ईमेल मेजकर प्राप्त की जा सकती है।	
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	05-08-2024	
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	15-08-2024	
12.	अनन्तिम सूची पर आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	20-08-2024	
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	30-08-2024	
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजना के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	04-09-2024	
15	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि	04-10-2024	
16	रुचि की अमिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए ईमेल आईडी संसाधित करें	cirp.indoalusys@gmail.com	

सतीश कुमार चुघ डीम्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इंडो एल्युसिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपी पंजीकरण संख्या - IBBI/IPA-003/IP-N00270/2020-2021/13196 संचार ईमेल आईडी - cirp.indoalusys@gmail.com दिनांकः 16.07.2024 पंजीकृत पता- 111-बी, पॉकेट-एफ, मयूर विहार फेज-II, स्थानः दिल्ली पूर्व, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 110091 एएफए वैधः 20-09-2024 तक

VOITH

वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकत कार्यालयः 113 / 114ए. सैक्टर-24, फरीदाबाद-121005, हरियाणा सीआईएन: L74899HR1968PLC004895 फोन: +91 129 4292200: फैक्स: +91 129 2232072 ई-मेल voithfabrics.faridabad@voith.com वेबसाईटः http://www.voithpaperfabricsindia.com

कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 124(6) कें अंतर्गत आईइपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरण हेत् शेयरधारकों को सूचना

कम्पनी के सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे सभी शेयर जिनके सम्बन्ध में लाभांश सात अथवा उस से अधिक वर्षों से दावा रहित अथवा अदत्त हैं, को कम्पनी द्वारा इस सन्दर्भ में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2018, यथा संशोधित, (आईइपीएफ नियम) के प्रावधानों के अंतर्गत विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईइपीएफ प्राधिकरण) में हस्तांतरित करना वांछनीय हैं। उक्त नियमों के अनुपालन में, कम्पनी ने पूर्व वर्षों में सम्बद्ध शेयरों को आईइपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमेट खाते में पहले ही हस्तांतरित कर दिया है, जिनके विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, शेयरों का एक और हिस्सा आईइपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित किया जाना है और इनके विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर www.voithpaperfabricsindia.com पर मुख्य कड़ी 'इन्येस्टर्स कॉर्नर' के अन्सर्गत 'इन्वेस्टर रिलेशनस' उप कड़ी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सभी संबंधितों द्वारा यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाई प्रक्रिया के पूर्ण होने एवं आईइपीएफ प्राधिकरण को ऐसे शेयरों के हस्तांतरण पर, पुराने प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएँगे और गैर-परक्राम्य होंगे।

कथित आईइपीएफ नियमों की आवश्यकताओं की अनुपालन में, कम्पनी ने, शेयरों के हस्तांतरण से बचने के लिए उचित कार्रवाई करने हेत्, सभी सम्बद्ध शेयरधारकों को कम्पनी के साथ उनके पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत रूप से संचार भेजा है। यदि इस संबंध में संबंधित शेंयरधारक से कम्पनी को 31 जुलाई 2024 तक कोई संचार प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी इन शेयरों को आईइपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में हस्तांतरित

करने हेत् यथासमय यथोचित कदम उठाएगी।

कम्पनी द्वारा आईइपीएफ प्राधिकरण को एक बार लागांश /शेयर हस्तांतरित करने के पश्चात ऐसे लामांशों / शेयरों का दावा आईइपीएफ प्राधिकरण से उपरोक्त नियमों की प्रक्रिया के अनुसार मात्र सम्बद्ध सदस्यों द्वारा किया जा सकता है।

यदि शेयरधारकों के इस विषय और नियमों पर कोई प्रश्न हैं. तो वे कम्पनी सचिव से +91 129 4292200 पर या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में एक पत्र शेजकर या investorcare.vffa@voith.com आईडी पर ईमेल मेजकर संपर्क कर सकते हैं।

कृते वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड

सी. एस. गुगलियानी स्थानः फरीदाबाद कम्पनी सचिव तिथिः 13/07/2024 एफसीएस संख्या 4301

SBFC

एसबीएफसी फाइनेस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 103, प्रथम तल, सी एण्ड बी स्क्वॉयर, संगम कॉम्प्लेक्स,

ग्राम चकला, अंबेरी-कुर्ला रोड, अंबेरी (पूर्व), मुंबई-400059 अधिग्रहण सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८(२) के अनुसार)

जबकि अबोहस्ताक्षरकर्ता ने एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अभिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित घारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त क्षकितयों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं / सह−उधारकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिन्हें सूचना में अंकित राशि का, उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्तागण राशि का प्रतिमुगतान करने में विफल हो चुके हैं. अंतएव एतदुद्वारा उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवर्शयत सम्पत्ति का, जवत नियमावली के नियम 8 के साध पठित जवत अधिनियम की घारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदश्त शक्तियाँ के प्रयोगान्तर्गत, निम्नांकित तिथियों पर अधिग्रहण कर लिया है।

जवारकर्ता / सह-जवारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदहारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का त्वेन-देन, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उपारकताओं के नाम एवं पत	सपात(या) का विवरण	आवप्रहण सूचना म	
तथा मांग सूचना की तिथि	तथा अविग्रहण की तिथि	मांगकृत राशि (ठ.)	
दोनों का पता : गढ़ के सामने गांव	पट्टा संख्या 2016 धारक संपत्ति के समस्त माग तथा अंग, जिसका कुल क्षेत्रफल 2052 वर्ग फुट है, जो लचूरा, तहसील- आसीद, भीलवाडा, राजस्थान में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित हैं - पूर्व- 31 फुट, पडोसी धीसू फिता हरिकेशन दरोगा, पश्चिम- 41 फुट रोड, उत्तर- 57 फुट, पडोसी सुमेरसिंह पिता शिवसिंह, दक्षिण- 57 फुट, पड़ोसी मंदरलाल पिता केशरमल जैन। अविग्रहण की तिथि: 10 जुलाई, 2024	लाख चनतालिस हजार पांच सी एक मात्र) 21 नवंबर 2022 के अनुसार	

ारकर्ता का ध्यान, प्रतिनृत परिसम्पलियों के मोघनार्थ सपय के परिप्रेक्य में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रायकानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। स्थान : भीलवाड्य, दिनांक : 16-07-2024 हस्ता /- (प्राधिकृत अधिकारी), एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

VOITH

वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 113/114ए, सैक्टर-24, फरीदाबाद-121005, हरियाणा; सीआईएनः L74899HR1968PLC004895 फोनः +91 129 4292200; फैक्सः +91 129 2232072; ई-मेलः voithfabrics.faridabad@voith.com वेबसाईटः http://www.voithpaperfabricsindia.com

54वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोर्टिंग तथा बही समापन की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 54वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को अपराह्न 3:30 बजे (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से, मानित स्थल पर, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 113/114-ए, सेक्टर-24, फरीदाबाद - 121005, हरियाणा में, एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसायों के संचालन के लिये आयोजित की जाएगी।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय **("एमसीए"),** भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी लागू परिपत्रों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, कंपनी ने वार्षिक रिपोर्ट 2023/24 के साथ 54वीं एजीएम की सूचना उन सदस्यों को ई–मेल की है, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। इस वर्ष भी नियामकों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, जब तक कि शेयरधारक द्वारा विशेष रूप से अनुरोध न किया जाए।

भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार, व्यावसायिक मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में फिर से वोट करने की अनुमित नहीं दी जाएगी। हालाँकि, रिमोट ई-वोटिंग सुविधा वैकल्पिक है और कोई सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")** या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों **("ओएवीएम")** के माध्यम से एजीएम में भाग लेते हुए ई-वोटिंग द्वारा वोट डाल सकता है।

ई—वोटिंग के उद्देश्य के लिए कट—ऑफ तिथि शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 है और वह व्यक्ति, जिसका नाम कट—ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का प्राप्त करने का हकदार होगा।

रिमोट ई—वोटिंग सुविधा मंगलवार, 06 अगस्त, 2024 को प्रात: 9:00 बजे आरंग होगी और गुरुवार, 08 अगस्त, 2024 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। मतदान के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग पोर्टल ब्लॉक कर दिया जायेगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कट—ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक अनुरोध भेजकर आवश्यक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.voithpaperfabricsindia.corn और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण की स्थिति में, सदस्यगण www.evotingindia.com पर 'सहायता' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्य्") और ई—वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं। ई—वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण investorcare.vffa@voith.com पर ईमेल के माध्यम से कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में, इस बिंदु पर ध्यान दिया जाय कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियाँ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का लाभांश प्राप्त करने के लिए, यदि घोषित किया गया हो, शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने हेतु शनिवार, 27 जुलाई, 2024 से शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

> कृते वॉयथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड सी. एस. गुगलियानी कंपनी सचिव

> > सदस्यता सं.: एफ४३०१

बंधक / गिरवी रखा गया है।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 15 जुलाई, 2024

दिनांक : 13 जुलाई, 2024

स्थान : फरीदाबाद

स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड

सीआईएन नं: L29222DL1979PLC009668 पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर-515, डीएलएफ टॉवर ए जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110025 कॉर्पोरेट कोर्यालयः प्लॉट नंबर 4, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एस्टेट, फरीदाबाद-121003 ई—मेलः csec@stifasteners.com, वेबसाइटः www.stifasteners.com टेलीफोन: 91129 2270621-25/फैक्स: 91129 2277359

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरण

यह सूचना कंपनी के शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम) की धारा 124 (6) के प्रावधानों के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम 2016, ("आईईपीएफ नियम") के अनुसार दी जाती हैं, जैसा कि समय—समय पर संशोधित किया जाता है, कंपनी को उन शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण ("आईईपीएफ प्राधिकरण) के डीमैट खाते में स्थानांतरित करना आवश्यक है, जिनके संबंध में लाभांश 7 (सात) या अधिक लगातार वर्षों की अवधि के लिए भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है।

ऐसे शेयरधारकों की सूची, जिन्होंने 7 सितंबर 2017 को घोषित वित्तीय वर्ष 2017—2018 (प्रथम अंतरिम) से लगातार सात वर्षों तक अपने लाभांश का भुनाया / दावा नहीं किया है और जिनके इक्विटी शेयरों को उचित समय पर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाना है, कंपनी की वेबसाइट www.stlfasteners.com पर निवेशक कॉलम के अंतर्गत प्रदर्शित की गई है।

नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है और शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उक्त संचार में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों को 14 अक्टूबर 2024 तक या उससे पहले कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को अग्रेषित करें ताकि दावा न किए गए लाभांश का दावा किया जा सके। डीमैट फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए, कृपया अपने डीमैट खाते में अपने बैंक विवरण को अपडेट करें और अनुरोध पत्र के साथ इसकी एक प्रति आरटीए को भेजें। भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए, कृपया फॉर्म ISR-1, फॉर्म ISR-2 और फॉर्म संख्या SH 13 (नामांकन फॉर्म) को उसमें बताए गए निर्देशों के अनुसार विधिवत भरकर संबंधित सहायक दस्तावेजों, शेयरधारक के नाम का मूल रद चेक और संयुक्त नाम सहित शेयरधारक(ओं) के पैन की प्रति के साथ RTA (यानी मास सर्विसेज लिमिटेड, टी-34 द्वितीय तल ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-II, नई दिल्ली 110020) को मेजें। यदि आप अपने फोलियो नंबर में आज की तारीख तक शेयर नहीं रख रहे हैं तो कृपया केवल अनुरोध पत्र, फॉर्म ISR-2 और मूल रद चेक भेजें।

संबंधित शेयरधारक, जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने योग्य हैं, कुपया ध्यान दें कि कंपनी नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन और हस्तांतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा रखे गए मूल के बदले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे जारी होने पर, कंपनी नए शेयर प्रमाणपत्र को डीमैट फॉर्म में परिवर्तित करने और आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयरघारकों के नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और उन्हें गैर--परकाम्य माना जाएगा और डीमैट फॉर्म में रखे गए शेयरों के मामले में, कंपनी आईईपीएफ नियमों के अनुसार कॉर्पोरेट कार्रवाई करेगी और शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। कंपनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित नहीं करेगी, जहां न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे शेयरों के किसी भी हस्तांतरण पर रोक लगाने का कोई विशिष्ट आदेश है या जहां शेयरों को डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के तहत

कृपया ध्यान दें कि दावा न किए गए लाभांश राशि और आईईपीएफ में स्थानांतरित इविवटी शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि दावा न किए गए लाभांश और दावा न किए गए शेयर, एक बार आईईपीएफ में स्थानांतरित होने के बाद आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस दावा किए जा सकते हैं (ई-फॉर्म-आईईपीएफ-5 दाखिल करने के बाद)।

शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए विवरण को नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र(ऑ) जारी करने के संबंध में पर्योप्त सूचना माना जाएगा।

उपरोक्त पर किसी भी अतिरिक्त जानकारी/ स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित शेयरधारक कंपनी को csec@stlfasteners.com पर लिख सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेससे एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, यूनिट: स्टर्लिंग दुल्स लिमिटेड, टी -34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -11, नई दिल्ली -110 020, फोन: 011-26387281/82/83, फैक्स: 011-26387384, ईमेल: investor@masserv.com से संपर्क कर सकते हैं।

स्टर्लिंग दूल्स लिमिटेड के लिए

हस्ता./-(अभिषेक चावला) कंपनी सचिव

आरबीएल बैंक लिमिटेड

जनसता

RBLBANK प्रशासनिक कार्यालय : प्रथम लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर-416001 арло ка bank शाखा कार्यालय: संपत्ति सं. 1, प्रथम तल, मोदी मिल्स के सम्मुख, ओखला फेज-3, नई दिल्ली-110020

सरफॉएसि अधिनियम २००२ की धारा १३(२) के अंतर्गत सूचना का प्रकाशन

तद्द्वारा उन अधोवर्णित ऋणधारक(गणों) / गारंटर(गणों) / बंधककर्ता(गणों) को सूचित किया जाता है, जिन्होंने बैंक से अपने द्वारा प्राप्त उधार 🖊 ऋण सुविधाओं के मूलधन एवं ब्याज के प्रतिभुगतान में चूक कर दी है तथा जिसके परिणामस्वरूप उनके ऋण खातों को अनिष्पादनीय परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। इस बाबत उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत, उनके अंतिम ज्ञात पतों पर सचनायें प्रेषित की गयी थीं। ऋणधारक, सह-ऋणधारक / गारंटरों / सूचना की तिथि

सं. एवं ऋण राशि

809002261811

	डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, फरीदाबाद, हरियाणा—121003. यहां भी : 1, गंगवाल पार्क, जेएलएन मार्ग, जयपुर, राजस्थान—302004, यहां भी : 4वां तल, 15ए, सिटी विस्टा, सूट नंबर 304, फाउंटेन रोड, खराड़ी, पुणे, महाराष्ट्र—411014, यहां भी : 5वां तल, एलआईजी—16/317, हाटकचोरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, लाल बाग के पास, टाउन जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़—494001। 2 मिस. सरताज अली, यूनिट नंबर 201, प्लॉट नंबर 15, कम्युनिटी सेंटर फेज—1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली—110020, यहां भी : एन—7, सेलिंग क्लब रोड, बाटला हाउस, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली—110025। 3 मिस. शिराज अली, यूनिट नं. 201, प्लॉट नं. 15, सामुदायिक केंद्र फेज—1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली—110020, यहां भी : एन—7, सेलिंग क्लब रोड, बटला हाउस, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली—110025 4 मिसे. नसरीन अली, यूनिट नं. 201, प्लॉट नं. 15, सामुदायिक केंद्र फेज—1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली—110020, यहां भी : एन—7, सेलिंग क्लब रोड, बटला हाउस, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली—110025 4 मिसे. नसरीन अली, यूनिट नं. 201, प्लॉट नं. 15, सामुदायिक केंद्र फेज—1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली—110020, यहां भी : एन—7, सेलिंग क्लब रोड, बटला हाउस, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली—110025	8.09002261811 8. 809002831885	2800 वर्ग फुट या 260.10 वर्ग मीटर अर्थात् 3100 वर्ग फुट है, जिसका सुपर एरिया 288 वर्ग मीटर है जो सुपर एरिया का है, जो एक फ्रीहोल्ड कमर्शियल बिल्डिंग का हिस्सा, प्लॉट नंबर 15 पर निर्मित, कम्युनिटी सेंटर, फेज—।, ओखला, नई दिल्ली में स्थित है, साथ ही उससे जुड़ी भूमि के आनुपातिक अधिकार, उनके सभी मालिकाना हक, स्वामित्स, हित या ग्रहणाधिकार, सुखभोग, विशेषाधिकार और उसकी संलग्नताओं के साथ है।	अट्ठारह लाख ग्यारह हजार नौ सौ सतहत्तर और पचपन पैसे मात्र) संविदागत दर पर ब्याज सहित (पूरा भुगतान होने तक) और राशि पर आकस्मिक व्ययों के साथ।	
	 मैसर्स स्वास्तिक टेंट सर्विसेज (इसके स्वामी श्री धमेंद्र ढींगरा के माध्यम से) पता : 4678 / 21, भूतल, अंसारी रोड, दिरयागंज, दिल्ली—110002 श्री धमेंद्र ढींगरा (स्वामी— मैसर्स स्वास्तिक टेंट सर्विसेज), पता : 4678, गली नं. 21, अंसारी रोड, दिरयागंज दिल्ली—110002 श्री कमल ढींगरा, पता : 4678, गली नंबर 21 अंसारी रोड, दिरयागंज दिल्ली—110002 सुमन ढींगरा, पता : 4678, गली नंबर 21 अंसारी रोड, दिरयागंज दिल्ली—110002 श्री संजय ढींगरा, पता : 4678 / 21, अंसारी रोड, फायर स्टेशन के पास, दिरयागंज, दिल्ली—110002 	809002984017 & 809002683804	संपूर्ण निर्मित संपत्ति, जिसमें इसकी छत सम्मिलित है और वहां उसमें स्थित फ्रीहोल्ड भूमि (1/2 + 1/2) के साथ, पानी और बिजली के कनेक्शन के साथ, संपत्ति नगरपालिका संख्या 4678, नंबर 21, अंसारी रोड, दिरयागंज, वार्ड नंबर XI, नई दिल्ली—110002 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :— पूर्व— लेन, पश्चिम— अन्य संपत्ति, उत्तर— सड़क, दक्षिण— अन्य संपत्ति।	12.07.2024 रू. 3,57,30,327.75/— (रुपये तीन करोड़ सत्तावन लाख तीस हजार तीन सौ सत्ताईस और पिचहत्तर पैसे मात्र) संविदागत दर पर ब्याज सहित (पूरा भुगतान होने तक) और राशि पर आकिस्मक व्ययों के साथ।	
1	उपरोक्त ऋणधारकों तथा / अथवा उनके गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) (जब भी लागू) को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की				

तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशि का भुगतान करें। भुगतान करने में विफल रहने पर उक्त 60 दिवसों के समापन उपरांत सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत भावी कार्यवाहियां की जायेंगी। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन, विधि—व्यवस्था के अंतर्गत उक्त ऋण / सुविधा के ऋणधारक(कों) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) के विरुद्ध कार्यवाही करने के

लिये बैंक के पास उपलब्ध ऐसे अधिकारों तथा उपायों 🖊 उपचारों के पूर्वाग्रह के बिना प्रकाशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आप से यह ध्यान में रखने का

अनुरोध है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप पर यह प्रतिबंधन 🖊 निषेधन लगाया जाता है कि आप हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति का निस्तारण अथवा संव्यवहार, अथवा उपरोक्त प्रतिभृत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। प्राधिकृत अधिकारी आरबीएल बैंक लिमिटेड दिनांक : 15-07-2024

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ~ (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेंड के नाम से जाना जाता था) GERNLAG

उधारकर्ता सह—उधारकर्ता,

गारंटर का नाम, और उधार की राशि

विक्रांत, विनोद कुमारी

आपने नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर गृह ऋण/संपत्ति सुविधा (ओं) का लाभ उठाया है। गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की अचल संपत्ति हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 17 नवंबर 2023 से गृहर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में बदल गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाना जाता था)लिमिटेड और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित) को इसके बाद सुरक्षित ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया गया है। . आपने द्वारा पुनर्भुगतान में चूक की है और इसलिए आपके ऋण को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। प्रतिभृतिकरण की धारा 13(2) के तहत एक मांग नोटिस और वित्तीय परिसंपत्ति का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए पिछली बार भेजा गया था। हालाँकि ज्ञात पते बिना सेवा के वापस आ गए हैं। अतः धारा 13(2) के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम आपके लिए वैकल्पिक सेवा के माध्यम से प्रकाशित की

उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं, गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और दावा की गई राशि का विवरण यहां नीचे इस सरक्षित संपत्ति का विवरण

पूर्वी भाग का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, (उक्त भाग)

	विक्रात, विचाद कुनारा	। पूर्वा मार्ग का वह पूरा दुकड़ा और पासल, बात्रफल 50 वर्ग गण, (उक्त मार्ग)	
en co	ऋण राशिः रु.1112492/— ऋण संख्याः HF/0179/H/19/100107	प्लॉट नंबर 2—एम का हिस्सा, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा नंबर 26//10, 1, 17/20, 21 में से, जो गांव—गोच्छी, तहसील—बल्लभगढ़, जिला—फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित है, जिसे आगे 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया गया है। सीमाओं का उल्लेख 07.12.2016 की बिक्री विलेख में किया गया है। पूर्व— प्लॉट नंबर 3 पश्चिम— श्री योगेश का शेष भाग उत्तर— अन्य भूमि दक्षिण— सड़क	रु. 994217 (नौ लाख चौरानबे हजार दो सौ सत्रह रुपये मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
2	धन सिंह, गरिमा देवी	प्लॉट नंबर 206 के मध्य भाग का पूरा टुकड़ा, प्लॉट एरिया 33.6 वर्ग गज, खसरा	09/07/2024
	ऋण राशिः रु.980000 / — ऋण संख्याः HF/0179/H/20/100085	मु. नंबर 7. किला नंबर 8(8—0), 8 कनाल में से, गौंची (पर्वतिया कॉलोनी) में स्थित। तहसील गौंची, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। (इसके बाद उक्त संपत्ति कहा जाएगा) सीमाएं: एटीएस के अनुसार पूर्वः रास्ता 15 फीट चौड़ा पश्चिमः प्लॉट नंबर 207 उत्तरः श्री बलजीत सिंह का प्लॉट दक्षिणः श्री प्रमोद सिंह का प्लॉट	रु. 1974470 (रुपये उन्नीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ सत्तर मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 9.72 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
3	पूजा, सोनू राम	खेवट/खाता संख्या 135/125, खोतनी संख्या 161, मुस्तिल संख्या 58, किला	09/07/2024
1127-1	ऋण राशिः रु.1020000 / — ऋण संख्याः HF/0179/H/20/100312	संख्या 14/1,(6–8), 15/1(0–6) में से 11 मरले माप की फ्रीहोल्ड अनिर्दिष्ट आवासीय संपत्ति/भूमि क्षेत्र का वह टुकड़ा और पार्सल जो वाका मौजा— जवां उप—तहसील—मोहना, बल्लभगढ़, जिला— फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, जिसे आगे 'उक्त संपत्ति' कहा जाएगा। उक्त संपत्ति के संबंध में प्लॉट/घर की सीमाएं इस प्रकार हैंरू— पूर्वः उल्लेख नहीं उत्तर उल्लेख नहीं पश्चिमः उल्लेख नहीं दक्षिणः उल्लेख नहीं	रु. 1062904 (दस लाख बासठ हजार नौ सौ चार रुपये मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 16.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
4	फूल सिंह, मुनेश वती	रामपुर कॉलोनी, माजरा रूपवास, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध	09/07/2024
	ऋण राशिः रु.716500 / – ऋण संख्याः HF/0399/H/20/100267	नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित, खसरा संख्या—63 वाले 100 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले फ्रीहोल्ड आवासीय भूखंड का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल (जिसे आगे संपत्ति कहा जाएगा) भूमि/फ्लैट/भूखंड की सीमाएं निम्नानुसार हैं: पूर्व— खेत श्री टेकराम पश्चिम— सड़क 20 फीट चौड़ी उत्तर— भूखंड श्रीमती ओमवती दक्षिण— अन्य भूखंड	ं रु. 781309 (सात लाख इकासी हजार तीन सौ नौ रुपये मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 15.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
5	अरविंद शर्मा, सुनीता शर्मा,	आवासीय संपत्ति का वह पूरा हिस्सा फ्लैट नंबर जीएफ-01, एमआईजी, ग्राउंड फ्लोर	09/07/2024
-210	ऋण राशिः रु.1770000 / — ऋण संख्याः HF/0399/H/21/100025	पर, बिना छत के अधिकार के, बिल्ड—अप प्लॉट नंबर ए—120 पर, क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 392 और 393 में से, ब्लॉक—ए में स्थित, ष्र्वयं वेद विहार हदबस्त गांव सादुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' कहा जाएगा)। प्लॉट की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व प्लॉट नंबर ए—121 पश्चिम— प्लॉट नंबर ए—119 उत्तर सड़क 9 मीटर चौड़ी दक्षिण—प्लॉट नंबर ए—133	रु. 1834653 (अठारह लाख चौंतीस हजार छह सौ तिरपन मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 11.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
6	संजय कुमार, पुष्पा देवी	फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट संख्या 99 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका	09/07/2024
	ऋण राशिः रु.22,00,000/— जिसमें शामिल है ऋण खाता संख्या HF/0399/H/21/100061 के तहत रु.1800000/— तथा ऋण खाता संख्या LAP0399200000005014949 के तहत रु.400000/—	माप 72 वर्ग गज (60.19 वर्ग मीटर) है, जो खाता संख्या 47 और खसरा संख्या 434 के अंतर्गत आता है, जो गांव आमका परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (यूपी) में श्याम एन्क्लेव में स्थित है। 'उक्त संपत्ति' भूमि/फ्लैट/प्लॉट की सीमाएं निम्नानुसार हैं: पूर्वः प्लॉट संख्या 137 पश्चिमः 18 फीट चौड़ी सड़क उत्तरः प्लॉट संख्या 100 दक्षिणः प्लॉट संख्या 98 माप क्षेत्ररू – 72 वर्ग गज।	ऋण संख्याः HF/0399/H/21/100061 रु. 1893594 (अठारह लाख तिरानबे हजार पांच सौ चौरानबे मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज। ऋण संख्याः LAP0399200000005014949 रु. 424339 (चार लाख चौबीस हजार तीन सौ उनचालीस मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 13 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।
7	सरोज कपूर, प्रिंस कपूर,	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जिसका नंबर 2सी है, छत के दाईं ओर दूसरी	09/07/2024
	यू प्रिंस ज्वेलर्स	मंजिल का हिस्सा, बिल्डिंग नंबररू–5126, हरफूल बिल्डिंग, क्लॉक टॉवर,	रु. 3343889 (रुपये तैंतीस लाख

मंजिल का हिस्सा, बिल्डिंग नंबररू-5126, हरफूल बिल्डिंग, क्लॉक टॉवर, ऋण राशिः तैंतालीस हजार नवासी मात्र) साथ मे सब्जी मंडी, दिल्ली-110007 सीमाएं: पूर्व-एन/ए, पश्चिम-एन/ए, रु.3600000 / -पुनर्भुगतान तक 16.8 प्रतिशत प्रति व उत्तर-एन / ए, दक्षिण-एन / ए की दर से अतिरिक्त ब्याज। ऋण संख्याः HL/0031/H/13/100067 09/07/2024 तीसरी मंजिल का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, तीसरी मंजिल की आम छत के साथ, मुकेश बाबू मित्तल, छत / छत के अधिकार के साथ, 'उक्त मंजिल, संपत्ति संख्या 296 / 7 (संपत्ति संख्या ग्लैमरी, दीपिका मित्तल रु. 1585021 (पंद्रह लाख पचासी ऋण राशिः रु.1903580/-296. वार्ड 7) का हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 90.4 वर्ग गज है, खसरा संख्या 642 मे हजार इक्कीस रुपए मात्र) साथ में से, गांव चंद्रावली उर्फ शाहदरा में, फर्श बाजार की आबादी में, इलाका शाहदरा पुनर्भुगतान तक 15.5 प्रतिशत प्रति दिल्ली-110032य इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाता है। पर्व-HL/0031/H/18/100034 वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज। संपत्ति संख्या २९७७/७ पश्चिम- संपत्ति संख्या २९८७/७ उत्तर - दक्षिण- संपत्ति संख्या

09/07/2024 मकान नंबर-47 ग्राउंड फ्लोर ओल्ड गुप्ता कॉलोनी दिल्ली दिल्ली 110009 रीना राय, रोहित राय ऋण राशिः रु. 10,30,500 / — ऋण संख्याः HL0031/GDGL0000273 क्षेत्रफल 800 वर्ग फीट पिन कोड- 110009 के सभी ट्रकडे और पार्सल से रु. 541412 (पांच लाख इकतालिस हज जिसमें रु. 655000 / – ऋण खात घिरा हुआ:- पूर्व:-ना, पश्चिम:- ना, उत्तर:-ना, दक्षिण:- ना। चार सौ बारह रुपए मात्र) HL0031/GDGL00002735 साथ में पुनर्भुगतान तक 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज। ऋण और रु. 375500/— ऋण खाता संख्याः HL0031/GDGL00003913 ह. 361893 (तीन लाख इकसठ हजार आ HL0031/GDGL00003913 सौ तिरानबे रुपए मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 16.85 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज।

ऊपरी भूतल का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, बिना छत के अधिकार के, संपत्ति 09/07/2024 राज कुमार सिंह, संख्या आरजेडबी-230 पुराने नंबर 9-ए, भूमि क्षेत्र माप 110 वर्ग गज, खसरा रु. ३६४०४६० (रुपये छत्तीस लाख रेणु सिंह ऋण राशिः संख्या 79/20, गांव नांगलोई जाट, ब्लॉक-बी, निहाल विहार, नांगलोई, नई चालीस हजार चार सौ साठ मात्र) साथ रु.3500000 / - ऋण संख्याः दिल्ली-110004 (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित) के क्षेत्र में स्थित HL00244100000005010748 में पुनर्भुगतान तक 11.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज। 09/07/2024 दीपक, जया मंजिल का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल यूजीएफ (ऊपरी भूतल) 3बीएचके (छत ऋण राशिः रु.2340000 / -के अधिकार के बिना), प्लॉट नंबर 219 पर निर्मित, खसरा नंबर 78 माप की रु. 2485115 (रू. चौबीस लाख पचासी ऋण संख्याः इकाई (हेक्टेयर / वर्ग मीटर) 66.88 वर्ग मीटर संपत्ति का कवर क्षेत्र 80 वर्ग गज हजार एक सौ पंद्रह मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक 11.65 प्रतिशत प्रति वर्ष HL00245000000005000695 सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) 9 मीटर 30 फीट चौड़ी सड़क अन्य की दर से अतिरिक्त ब्याज।

विवरण (9 मीटर सड़क / कोने आदि) एक डबल रोड नहीं है 09/07/2024 प्लॉट नंबर सी-2/17 पर निर्मित ऊपरी तल तल पर फ्लैट नंबर यूजीएफ-03 का योगेन्द्र, केसर वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, डीएलएफ अंकुर विहार में, गांव सादुल्लाबाद, परगना ऋण राशिः रु.८७२०००६ रु. 911824 (नौ लाख ग्यारह हजार लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यूपी के क्षेत्र में स्थित है। (इसके बाद उक्त ऋण संख्याः आठ सौ चौबीस रुपये मात्र) साथ में संपत्ति कहा जाएगा)। सीमाएं: पूर्वः – दूसरों की संपत्ति और एलएलएफ रोड 60 HL00399100000005017503 पनर्भगतान तक 10.7 प्रतिशत प्रति वर्ष फीट चौड़ी। पश्चिम:— सड़क 12 मीटर चौड़ी। उत्तर:— प्लॉट नंबर सी–2/16 की दर से अतिरिक्त ब्याज। दक्षिण:- दूसरों की संपत्ति और एलएलएफ पार्क। वह सारा टुकड़ा और पार्सल जिसका क्षेत्रफल 122.66 वर्ग गज यानी 102. 09/07/2024 प्रीत कुमार, प्रवेश

ऋण राशिः रु. 24,90,000 / -56 वर्ग मीटर है, खाता संख्या 00350 और खसरा संख्या 247 में से, गांव जिसमें रु. 910000 /-अमराला परगना जलालाबाद तहसील मोदी नगर जिला गाजियाबाद में ऋण खाता संख्या स्थित है। (इसके बाद इसे 'उक्त संपत्ति' कहा जाएगा) सीमाएं– पूर्व– अमित HL00652200000005027083 की जमीन। पश्चिम- पुष्पेंद्र का घर। उत्तर- सड़क 15 फीट चौड़ी। तथा रु. 1580000/-ऋण खाता संख्या दक्षिण– दानकर्ता का घर। LAP0652200000005027126 शामिल है

नरेश कुमार, संतोष वह सारा टुकड़ा और पार्सल फ्रीहोल्ड आवासीय एकल मंजिला मकान जिसका देवी क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानि 83.61 वर्ग मीटर है, खसरा संख्या 573 में से भूमि ऋण राशिः रेजीडेंसी ब्लॉक – एक गांव धूम मानिकपुर परगना और तहसील दादरी जिला रु.900000 /-गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में ऋण संख्याः संदर्भित) और संपत्ति की सीमाएं पूर्व- खेत ज्ञानेश्वर कुमार श्रीवास्तव पश्चिम-HL00659100000005030783 प्लॉट संख्या 23 उत्तर- प्लॉट संख्या 33 दक्षिण- रास्ता 20 फीट चौडा

राशि का पूरा भुगतान करें, ऐसा न करने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त उल्लिखित सुरक्षा/ सुरक्षाओं को लागू करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया जाएंगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस बीच, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है।

इसलिए आप उधारकर्ताध्यों और सह–उधारकर्ताध्योंध्यारंटर से अनुरोध है कि आप इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित व्याज के साथ ऊपर उल्लिखित मांगी गई

स्थानः दिल्ली हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) दिनांक: 16.07.2024